

इसे वेबसाईट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपाल

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2014—आश्विन 23, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

घोषणा  
( नियम-6 )

क्र. एफ 21-06-2014-एक-10.—यतः यह अधिकथित किया गया है कि श्री प्रेमराव चन्द्रेलकर, तत्कालीन सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, आगर, जिला शाजापुर का पद धारण करते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)ई, 13(2) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 4/2011, धारा 13(1)ई, 13(2) भ.नि.अ. 1988 सन् 2010-11 को मामलों का अन्वेषण किया गया है।

और, यतः अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री प्रेमराव चन्द्रेलकर, तत्कालीन सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, आगर, जिला शाजापुर पर जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की है, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण बनता है।

और यतः राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अपराधी पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए :

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कौल, उपसचिव।